

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2023-आषाढ़ 2, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र प्रत्यक्ष भार्गव (PRATYAKSHA BHARGAVA) के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र 10वीं CBSE की अंकसूची वर्ष 2023 में मेरे घर का नाम रोशनी भार्गव (ROSHNI BHARGAVA) लिख गया है, जबकि मेरा वर्तमान नाम वंदना भार्गव (VANDANA BHARGAVA) है. जो मेरे सभी दस्तावेजों में जैसे-आधारकार्ड, वोटरकार्ड, पैनकार्ड इत्यादि में मेरा नाम वंदना भार्गव लिखा गया है. अतः मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र 10वीं CBSE की अंकसूची वर्ष 2023 में मेरा नाम रोशनी भार्गव के स्थान पर वंदना भार्गव लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(रोशनी भार्गव)

नया नाम
(वंदना भार्गव)
पत्नी-श्री कामेस एस. भार्गव,
सुविधिनाथ अपार्टमेंट, सिलीकॉन,
सिटी रौ रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1131)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स डीएचआर एसोसियट्स जिसका पंजीयन क्रमांक-02-42-01-00297-12, दिनांक 02-03-2012 है जो एफएल-296, डी. डी. नगर, ग्वालियर में स्थित है. जिसमें दिनांक 20-07-2022 को सभी फर्म के भागीदारों के मध्य आम सहमति (स्वेच्छा-अनुसार) फर्म का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया गया है. अतः भारतीय भागीदारी फर्म अधिनियम, 1932 के अनुसार फर्म का विघटन (समाप्त) किया जा चुका है.

मेसर्स डीएचआर एसोसियट्स,
(धरमवीर सिंह)
भागीदार.

(G-1132)

नाम परिवर्तन

मैं, हरीलाल जाटव (HARILAL JATAV) स्व. श्री उदुआराम जाटव सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम हरीलाल जाटव है, जाटव मेरी जाति होने के कारण लिखा गया था जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटरकार्ड, समग्र आईडी, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य इत्यादि प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि मेरा सरनेम मौर्य है जो मेरे सभी परिवार सदस्यों के नाम में लिखा गया है. इस कारण मैंने वर्तमान में अपना नाम हरीलाल जाटव, जाटव जाति के स्थान पर सरनेम मौर्य कर लिया है. अतः मुझे वर्तमान एवं भविष्य में भी हरीलाल मौर्य (HARILAL MOURYA) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाएगा एवं साथ ही मेरे सभी प्रपत्रों जो मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड, वोटरकार्ड, समग्र आईडी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य इत्यादि प्रपत्रों में मेरा नाम हरीलाल जाटव के स्थान पर हरीलाल मौर्य लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(हरीलाल जाटव)

नया नाम
(हरीलाल मौर्य)
पुत्र-स्व. श्री उदुआराम जाटव,
वार्ड नं. 04, लक्ष्मणपुरा, चीनौर रोड,
डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1133)

नाम परिवर्तन

मैं, अब्दुल हमीद दिवान पिता अब्दुल मजीद दिवान, निवासी-वार्ड नं. 07, मकान नं. 13, बैहर रोड, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश का निवासी हूँ. मेरा पुराना नाम अब्दुल हमीद खान पिता अब्दुल मजीद दिवान था. जो कि शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है.

मैं, अपना कुल नाम खान से बदलकर दिवान कर दिया है. अब मेरा नया नाम अब्दुल हमीद दिवान पिता अब्दुल मजीद दिवान हो गया है. मुझे नये नाम से जाना, पहचाना जाये एवं समस्त शासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(अब्दुल हमीद खान)
(ABDUL HAMID KHAN)

नया नाम
(अब्दुल हमीद दिवान)
(ABDUL HAMID DIWAN)

(G-1134)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शपथकर्ता रामप्रसाद कुर्मी (RAMAPRASAD KURMI), उम्र 41 वर्ष, पिता जमना प्रसाद, निवासी-ग्राम कोटरा, तहसील पथरिया, जिला दमोह (म.प्र.) है कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज व इसी नाम से मुझे जाना, पहचाना जाता है परन्तु मैं जहां काम करता हूँ, वहां त्रुटिवश मेरा नाम रामप्रसाद जे पटेल अंकित हो गया है, जो कि गलत है.

पुराना नाम
(रामप्रसाद जे पटेल)

नया नाम
(रामप्रसाद कुर्मी)

(G-1135)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम किशोर लश्करी (KISHORE LASHKARI) पिता श्री कैलाश लश्करी है जो कि सही व सत्य है. तथा मेरे वोटर कार्ड एवं समग्र आई. डी. पर दर्ज है. किन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा बोलता नाम वीरू लश्करी (VEERU LASHKARI) पिता श्री कैलाश लश्करी दर्ज हो गया है एवं मेरी एक भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा पॉलीसी में कमल किशोर दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम किशोर लश्करी (KISHORE LASHKARI) पिता श्री कैलाश लश्करी के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(वीरू लश्करी)
(VEERU LASHKARI)

(G-1136)

नया नाम

(किशोर लश्करी)
(KISHORE LASHKARI)

पिता—श्री कैलाश लश्करी,
पता—134/2, मरीमाता का बगीचा,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम साधना अग्रवाल (SADHNA AGRAWAL) पिता श्री परमसुख अग्रवाल था, जो कि मेरे कुछ शेरर प्रमाण पत्रों पर अंकित हो गया है तथा कुछ शेरर प्रमाण पत्रों पर साधना देवी अग्रवाल अंकित हो गया है, जिसको मैंने परिवर्तित कर साधना मंगल (SADHNA MANGAL) पति सतीश मंगल कर लिया है, जो मेरे आधारकार्ड एवं पैनकार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे साधना मंगल पति सतीश मंगल के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(साधना अग्रवाल)
(SADHNA AGRAWAL)

(G-1137)

नया नाम

(साधना मंगल)
(SADHNA MANGAL)

पति—सतीश मंगल,
पता—92, सपना संगीता टॉकिज के पीछे,
अशोकनगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती संजना पति संजय नायक, पता—303, छाया कार्नर अपार्टमेंट, 82—83, पद्मावती कॉलोनी, इन्दौर, म.प्र., शादी के पूर्व मुझे कु. ममता जैन पिता प्रकाशचंद जैन के नाम से जाना जाता था जो कि शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है तथा मेरा विवाह संजय नायक पिता स्व. श्री कन्छेदीलालजी नायक के साथ संपन्न होने से मैं, श्रीमती संजना पति संजय नायक के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. विवाह के पश्चात् मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेज पैनकार्ड, आधारकार्ड, परिचय—पत्र में मेरा नाम संजना पति संजय नायक दर्ज है. भविष्य में मुझे श्रीमती संजना पति संजय नायक के नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम

(ममता जैन)
पिता—प्रकाश जैन

(G-1138)

नया नाम

(संजना नायक)
पति श्री संजय नायक.

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक वर्मा पिता श्यामलाल वर्मा, निवासी-ग्राम पो. धौरहरा, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना, म.प्र. मेरे अंकसूची में मेरा नाम दीपक रैकवार लिख दिया गया है. जबकि मेरा नाम दीपक वर्मा है जो कि मेरे आधारकार्ड, पहचान-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम दीपक वर्मा है जो सही एवं सत्य है. दीपक रैकवार के स्थान पर सुधार किया जाकर दीपक वर्मा दर्ज किया जाये. जिसे पढ़ा-लिखा माना समझा जाए.

पुराना नाम
(दीपक रैकवार)

नया नाम
(दीपक वर्मा)

(G-1139)

CHANGE OF NAME

I, Priyavrat S/o Subodh Sharma, R/o L-143, Sant Asharam Nagar, Phase 3, Laharpur, Bagmugalia, Bhopal M.P. (462043) have changed my name to PRIYAVRAT SHARMA for all future purposes.

Old Name
(PRIYAVRAT)

New Name
(PRIYAVRAT SHARMA)

(G-1140)

नाम परिवर्तन

मैं, SAYYAD AFREEN D/o RAUNAK ALI, निवासी-शेखों का मोहल्ला, टीकमगढ़ (म.प्र.) की हूँ. यह कि मेरी सभी अंकसूचियों में मेरे माता का नाम- YASHMEEN BEGUM एवं पिता का नाम- ROUNAK ALI दर्ज है. परन्तु अन्य सभी दस्तावेजों में मेरी माता का नाम-YASMEEN BEGUM तथा पिता का नाम- RAUNAK ALI दर्ज है, जो कि सही है. जिस भी दस्तावेजों में मेरी माता का नाम-YASHMEEN BEGUM तथा पिता का नाम- ROUNAK ALI दर्ज है. उसके स्थान पर माता का नाम-YASMEEN BEGUM तथा पिता का नाम- RAUNAK ALI पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम
(SAYYAD AFREEN)
D/o ROUNAK ALI,
Smt. YASHMEEN BEGUM

नया नाम
(SAYYAD AFREEN)
D/o RAUNAK ALI,
Smt. YASMEEN BEGUM

(G-1141)

नाम परिवर्तन

मैं, MOHAMMAD SHAKEEL S/o ABDUL JAMEEL, निवासी-4/1, BARA MAHAL, SHAHJANABAD, BHOPAL (M.P.) का हूँ. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम-MOHD SHAKEEL, MOHMMAD SHAKEEL दर्ज है. जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम-MOHD SHAKEEL, MOHMMAD SHAKEEL दर्ज है. उसके स्थान पर MOHAMMAD SHAKEEL पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम
(MOHD SHAKEEL, MOHMMAD SHAKEEL)

नया नाम
(MOHAMMAD SHAKEEL)

(G-1142)

नाम परिवर्तन

मैं, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम गौरव है. आधार कार्ड में मेरा नाम जयप्रताप सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह अंकित है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. भविष्य में मेरा नाम गौरव पुत्र सत्यनारायण के नाम से जाना, पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में भी उक्त नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(जय प्रताप सिंह)

नया नाम
(गौरव)
पता-गाम व पोस्ट चौम्हो,
तहसील अटेर, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-1143)

नाम परिवर्तन

मैं, मर्सी सेबास्टीयन नेल्लीसरी (Mercy Sebastian Nellisery) आत्मज श्री एन. एल. सेबास्टीयन (N. L. Sebastian), निवासी-ई-7/755, विवेक अपार्टमेंट के पास, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र. सर्वसाधारण को सूचित करना चाहती हूँ कि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम सिस्टर मर्लिन (Sister Merlin) आत्मज श्री सेबास्टीयन (Sebastian) दर्ज है. जबकि मेरी अंकसूची में मेरा एवं पिता का नाम मर्सी सेबास्टीयन नेल्लीसरी (Mercy Sebastian Nellisery) आत्मज श्री एन. एल. सेबास्टीयन (N. L. Sebastian) दर्ज है. मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ, यही मेरा सही नाम है. मैं, मर्सी सेबास्टीयन नेल्लीसरी (Mercy Sebastian Nellisery) आत्मज श्री एन. एल. सेबास्टीयन (N. L. Sebastian) के नाम से ही जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(सिस्टर मर्लिन)
(SISTER MERLIN)
आत्मज श्री सेबास्टीयन (SEBASTIAN)

नया नाम
(मर्सी सेबास्टीयन नेल्लीसरी)
(MERCY SEBASTIAN NELLISSERY)
आत्मज श्री एन. एल. सेबास्टीयन (N. L. SEBASTIAN)

(G-1144)

नाम परिवर्तन

सर्वजन सूचित हों कि मेरा नाम राजेश सिंह चौहान है, यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि मेरे शासकीय सेवा (रेलवे विभाग) के दस्तावेजों में मेरा नाम राजेश सिंह अंकित है. राजेश सिंह और राजेश सिंह चौहान मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. भविष्य में मुझे राजेश सिंह चौहान के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा जावे एवं मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राजेश सिंह)

नया नाम
(राजेश सिंह चौहान)
S/o चम्पा सिंह चौहान (C. S. Chouhan),
R/o न्यू रेशम मिल रोड, प्रगति नगर,
बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1145)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राजाराम एण्ड ब्रदर्स, पता—महू, नीमच रोड, मन्दसौर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश. पंजीयन क्रमांक 176/1993-94, दिनांक 16-07-1993 है. जिसमें दिनांक 04-02-2023 को Shri Suryakant Gupta S/o Late Shri Rajaramji Gupta, Resident of Lal Bagh, Rajnandgaon (Chattisgarh) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं. उक्त दिनांक 04-02-2023 से इस फर्म मेसर्स राजाराम एण्ड ब्रदर्स, पता—महू, नीमच रोड, मन्दसौर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश से Shri Suryakant Gupta S/o Late Shri Rajaramji Gupta जी का कोई लेना-देना नहीं है.

वर्तमान में इस फर्म मेसर्स राजाराम एण्ड ब्रदर्स में निम्नानुसार भागीदार रहेंगे.

For RAJARAM & BROTHERS

1. Alpana Gupta, 2. Rakhi Garg
3. Pooja Goyal, 4. Mukta Goyal

(Partner).

(G-1146)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा नाम PRAVEER KUMAR WAKANKAR है जो कि आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों में दर्ज है जबकि मेरे कार्यालयीन दस्तावेजों में मेरा शोर्ट नाम P. K. WAKANKAR अंकित है. मुझे भविष्य में मेरे पूरे नाम PRAVEER KUMAR WAKANKAR से ही जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(P. K. WAKANKAR)

नया नाम

(PRAVEER KUMAR WAKANKAR)

S/o PURSHOTTAM KESHAV WAKANKAR,
R/o F-5/12, विंडसरहिल्स, सिरोल रोड,
न्यू सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1147)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम MADHUKAR SAKHARAMPANT KALGAONKAR है, जो कि मेरे पी.पी.ओ. में दर्ज है. MADHUKAR SAKHARAMPANT KALGAONKAR एवं MADHAVRAO KALGAONKAR मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. मुझे भविष्य में MADHUKAR SAKHARAMPANT KALGAONKAR के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(MADHAVRAO KALGAONKAR)

नया नाम

(MADHUKAR SAKHARAMPANT KALGAONKAR)

S/o SAKHARAM KALGAONKAR,
R/o SHUBMANGAL APARTMENTS
134/C, RAJENDRA NAGAR, INDORE (M.P.).

(G-1148)

नाम परिवर्तन

सर्व-सूचित हों कि शादी के पूर्व मेरा नाम कु. ज्योति वर्मा पुत्री मदन लाल वर्मा था जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में कु. ज्योति एवं वोटर कार्ड में ज्योति वर्मा एवं एलआईसी की पॉलिसी में कु. ज्योति कुमारी वर्मा दर्ज है। शादी के उपरांत मेरा नाम हेमा सरकार पत्नी दिलीप सरकार हो गया है। यही नाम मेरे आधार कार्ड एवं पेनकार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है। उपरोक्त दोनों नाम मुझे एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में मुझे कु. ज्योति वर्मा/ कु. ज्योति कुमारी वर्मा के स्थान पर हेमा सरकार के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे एवं समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(ज्योति वर्मा)
पुत्री-मदन लाल वर्मा.

नया नाम
(हेमा सरकार)
पत्नी-दिलीप सरकार,
पता-क्वार्टर नं. 8, लाईन नं. 3ए,
बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1149)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले मेरा नाम सुधा महेश्वरी था। शादी के पश्चात् मेरा नाम सुधा अग्रवाल हो गया है। अतः, अब मैं, सुधा अग्रवाल के नाम से जानी-पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम
(सुधा महेश्वरी)

नया नाम
(सुधा अग्रवाल)
निवासी- म.नं. डी-28,
नेहरू नगर, भोपाल.

(G-1150)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कुमारी आराधना (Kumari Aradhana) पत्नी श्री गौतम कुमार, व्यस्क, निवासी-हाल मुकाम बी-16, अमलतास गोल्ड विले, कटारा हिल्स, भोपाल में निवास करती हूँ। मेरा नाम कुमारी आराधना (Kumari Aradhana) है। मेरे पुत्र हर्षित श्रीवास्तव (Harshit Shrivastava) के जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश मेरा नाम अराधना श्रीवास्तव लिखा गया है। जबकि मेरे आवश्यक दस्तावेज जैसे-पेनकार्ड, आधार कार्ड आदि पर मेरा नाम कुमारी आराधना (Kumari Aradhana) ही लिखा हुआ है। मुझे कुमारी आराधना (Kumari Aradhana) के नाम से ही जाना-पहचाना जाता है, भविष्य में भी मुझे कुमारी आराधना (Kumari Aradhana) के नाम से ही जाना-पहचाना जाये।

पुराना नाम
(अराधना श्रीवास्तव)

नया नाम
(कुमारी आराधना)

(G-1151)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ज़ाबाज खान (Zabaj Khan) आत्मज श्री अब्दुल जब्बार, आयु-वयस्क, निवासी-म.नं. 824, रोशनपुरा ग्वाल मोहल्ला, दुर्गा जी मंदिर के पास, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. 462003 मेरे द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का एकेडमिक एकजामिनेशन उत्तीर्ण किया है। जिसकी अंकसूची संलग्न है, जिसमें मेरा

नाम जाबाज मोहम्मद (Jabaj Mohammad) अंकित है. किन्तु मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम जाबाज खान (Zabaj Khan) आत्मज श्री अब्दुल जब्बार है एवं मैं इसी नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ. इस विज्ञप्ति उपरांत मुझे अपने संशोधित नाम जाबाज खान (Zabaj Khan) आत्मज श्री अब्दुल जब्बार के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए और भविष्य में भी मैं इसी नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा.

पुराना नाम
(जाबाज मोहम्मद)
(Jabaj Mohammad)
पुत्र-श्री अब्दुल जब्बार

नया नाम
(जाबाज खान)
(Zabaj Khan)
पुत्र-श्री अब्दुल जब्बार.

(G-1152)

नाम परिवर्तन

मैं, चंद्र रानी पति श्री नारायण सिंह, आयु वयस्क, निवासी-टावर के पास, 122/366, भानपुर शिव नगर कॉलोनी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि यह कि मेरा पूरा नाम चंद्र रानी पति श्री नारायण सिंह है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम यशोदाबाई पति श्री नारायण सिंह लिखा हुआ है. अपने आधार कार्ड में चंद्र रानी पति नारायण सिंह करना चाहती हूँ. आगे मैं इसी नाम से जानी-पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(यशोदाबाई)
W/o श्री नारायण सिंह

नया नाम
(चंद्र रानी)
W/o श्री नारायण सिंह

(G-1153)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम भाग्यवती (BHAGYVANTI) पति विनोद सिंह चौहान था. जो अब बदलकर मेरा नाम पार्वती चौहान (PARVATI CHOUHAN) पति विनोद सिंह चौहान हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(भाग्यवती)
(BHAGYVANTI)
पति-विनोद सिंह चौहान.

नया नाम
(पार्वती चौहान)
(PARVATI CHOUHAN)
पति-विनोद सिंह चौहान,
पता-114, मंडले कॉलोनी, रंगवासा रोड के पास,
राऊ, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1154)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Kheria Infratech having head office at Khatke Sahab Ka Bada, Dal Bazar, Lashkar, Gwalior is registeted Partnership Firm with Registrar of Firms and Societies vide Registration No. 02/42/01/0009/23 dt. 15.04.2023.

On 26.05.2023, the following have been added as partner in the Partnership Firm wef 26-05-2023:-

1. Shri Lal Singh Gurjar
2. Shri Kiledar Singh Gurjar
3. Shri Bhoop Singh Gurjar
4. Shri Satendra Singh Gurjar
5. Smt. Meera Bai Gurjar

Now the Partners of the firm are:-

1. Yash Kumar Goyal
2. Kartikey Goyal
3. Shri Lal Singh Gurjar
4. Shri Kiledar Singh Gurjar
5. Shri Bhoop Singh Gurjar
6. Shri Satendra Singh Gurjar
7. Smt. Meera Bai Gurjar

This public notice is being published for the purpose of registration of change in the composition of the partnership firm with the office of Registrar of firm and society.

For 'M/s. Kheria Infratech,
(KARTIKEY GOYAL)
(Partner).

(G-1155)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती जया रामटेके पति श्री प्रभाकर रामटेके घोषणा करती हूँ कि विवाह पूर्व मेरा नाम जयमाला वासनिक (JAYMALA WASNIK) पुत्री श्री सावजी वासनिक था, जो कि मेरे 11वीं कक्षा के स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर अंकित है, श्री प्रभाकर रामटेके से विवाह के उपरान्त मेरा नाम जया रामटेके (JAYA RAMTEKE) पति श्री प्रभाकर रामटेके हो गया है, जो मेरे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मेरे पुत्रों की अंकसूची में भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे जया रामटेके पति श्री प्रभाकर रामटेके के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(जयमाला वासनिक)
(JAYMALA WASNIK)

नया नाम

(जया रामटेके)
(JAYARAMTEKE)
पति-श्री प्रभाकर रामटेके,
पता-91, डॉ. अम्बेडकर नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-1156)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ठाकुर दास परसवानी पिता स्व. श्री नारायण परसवानी, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी—सिंधु भवन के पास, मोहन नगर, वार्ड नम्बर 38, छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, म.प्र. पिन-480001. मेरे पुत्रों क्रमशः यश परसवानी तथा आकाश परसवानी के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा घर का नाम सुमित परसवानी SUMEET PARASWANI अंकित है, जबकि मेरा वास्तविक नाम ठाकुर दास परसवानी THAKUR DAS PARASWANI है, मैं इसी नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ मेरे पुत्रों क्रमशः यश परसवानी तथा आकाश परसवानी के शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम सुधार करने हेतु इस सूचना प्रकाशन करता हूँ, इस सूचना प्रकाशन के बाद मुझे मेरे वास्तविक नाम ठाकुर दास परसवानी THAKUR DAS PARASWANI के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम

(सुमित परसवानी)

(G-1157)

नया नाम

(ठाकुर दास परसवानी)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सृष्टि मिश्रा पिता श्री विनोद कुमार मिश्रा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी—राजपाल चौक, वार्ड नंबर 25, छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, म.प्र. पिन-480001. मेरी कक्षा दसवी की अंकसूची में मेरी माता का नाम सीमा तथा पिता का नाम विनोद कुमार SEEMA/VINOD KUMAR अंकित है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम विनोद कुमार मिश्रा VINOD KUMAR MISHRA तथा माता का नाम सीमा मिश्रा SEEMA MISHRA है, मेरे कक्षा दसवी के शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम सुधार करने हेतु इस सूचना प्रकाशन करती हूँ, इस सूचना प्रकाशन के बाद मेरे माता-पिता के नाम में मिश्रा MISHRA सरनेम जोड़ा जावे. जो सत्य एवं सही है.

पुराना नाम

(सीमा / विनोद)

(G-1158)

नया नाम

(सीमा मिश्रा / विनोद कुमार मिश्रा)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तरुण मिश्रा पिता श्री विनोद मिश्रा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी—राजपाल चौक, वार्ड नंबर 25, छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, म.प्र. पिन-480001. मेरी कक्षा दसवी की अंकसूची में मेरी माता का नाम सीमा तथा पिता का नाम विनोद SEEMA/VINOD अंकित है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम विनोद मिश्रा VINOD MISHRA तथा माता का नाम सीमा मिश्रा SEEMA MISHRA है, मेरे कक्षा दसवी के शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम सुधार करने हेतु इस सूचना प्रकाशन करता हूँ, इस सूचना प्रकाशन के बाद मेरे माता-पिता के नाम में मिश्रा MISHRA सरनेम जोड़ा जावे. जो सत्य एवं सही है.

पुराना नाम

(सीमा / विनोद)

(G-1159)

नया नाम

(सीमा मिश्रा / विनोद मिश्रा)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अश्वनी मिश्रा पिता श्री राजेन्द्र मिश्रा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी—परतला वार्ड नम्बर 48, छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, म.प्र. पिन 480001. मेरी कक्षा दसवी की अंकसूची में मेरी माता का

नाम सुषमा तथा पिता का नाम राजेन्द्र SUSHMA/RAJENDRA अंकित है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम राजेन्द्र मिश्रा RAJENDRA MISHRA तथा माता का नाम सुषमा मिश्रा SUSHMA MISHRA है, मेरे कक्षा दसवीं के शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम सुधार करने हेतु इस सूचना प्रकाशन करता हूँ, इस सूचना प्रकाशन के बाद मेरे माता-पिता के नाम में मिश्रा MISHRA सरनेम जोड़ा जावे, जो सत्य एवं सही है।

पुराना नाम

(सुषमा/राजेन्द्र)

(G-1160)

नया नाम

(सुषमा मिश्रा./राजेन्द्र मिश्रा)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे नाम अलेफिया पति युसुफअली के नाम से समस्त दस्तावेज है। मेरा नाम विवाह के समय अलेफिया पति युसुफअली (ALEFIYA W/O YUSUF ALI) अंकित था, जो कि तलाक के बाद मेरा नाम परिवर्तित होकर अलेफिया लेमनवाला पिता नजमुद्दीन लेमनवाला हो गया है। वर्तमान में मैं, अलेफिया लेमनवाला पिता नजमुद्दीन लेमनवाला (ALEFIYA LEMONWALA D/O NAJMUDDIN LEMONWALA) के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

(अलेफिया लेमनवाला)

पिता-नजमुद्दीन लेमनवाला,
निवासी-63, बट्टीबाग कॉलोनी,
माणिक बाग रोड, इन्दौर।

(G-1161)

जाहिर सूचना

मेरा नाम मनोज कामत पिता खुशीलाल कामत, निवासी-301, ए, रमेश रेजिडेन्सी राऊ, तहसील व जिला इन्दौर। मेरी 10वीं की अंकसूची सी.बी.एस.सी. बोर्ड दिल्ली की है। उक्त अंकसूची में मेरा अंग्रेजी में गलती (त्रुटि) से **MONAJ** हो गया है जबकि मेरा सही नाम में अंग्रेजी में **MANOJ KAMAT** है। मैं इसी नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ।

आवेदक

MANOJ KAMAT

मनोज कामत पिता खुशीलाल
301, ए रमेश रेजिडेन्सी राऊ।

(G-1162)

नाम परिवर्तन

मैं, रोमिल मालपानी पिता ओमप्रकाश मालपानी है, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का घर का नाम श्रेष्ठ मालपानी है। जबकि वर्तमान में वह प्रबीर मालपानी पुत्र रोमिल मालपानी के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है और भविष्य में भी मेरा पुत्र प्रबीर मालपानी के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाएगा। उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में भी प्रबीर मालपानी लिखा गया है। अतः राजपत्र सूचना प्रकाशन के पश्चात् मेरे पुत्र का नाम वर्तमान एवं भविष्य में भी प्रबीर मालपानी के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाएगा एवं पूर्व में लिखे श्रेष्ठ मालपानी नाम के आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में भी उसका नाम प्रबीर मालपानी लिखा एवं पढ़ा जाये।

पुराना नाम

(श्रेष्ठ मालपानी)

(G-1163)

नया नाम

(प्रबीर मालपानी)

सूचनाकर्ता रोमिल मालपानी
निवासी-186, गुमास्ता नगर, इन्दौर।

नाम परिवर्तन

मैं, विनोद किरार (VINOD KIRAR) पुत्र नारायण सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम विनोद सिंह राजपूत (VINOD SINGH RAJPOOT) था. जो मेरी बीमा पॉलीसियों क्रमांक 202372986 एवं 200355281 में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, विनोद किरार पुत्र नारायण सिंह के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाता हूँ जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में लिखा है एवं भविष्य में भी मैं, विनोद किरार के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा. विनोद किरार एवं विनोद सिंह राजपूत दोनों ही मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी बीमा पॉलीसियों क्रमांक 202372986 एवं 200355281 में मेरा नाम विनोद सिंह राजपूत के स्थान पर विनोद किरार लिखा एवं पढ़ा जाए.

पुराना नाम
(विनोद सिंह राजपूत)

नया नाम
विनोद किरार पुत्र नारायण सिंह
ग्राम ककरधा, पोस्ट उर्बा,
तहसील भितरवार, ग्वालियर, म.प्र.

(G-1164)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "S D SINGH CONSTRUCTION" पंजीयन क्रमांक 05-49-01-0043-16, पंजीयन दिनांक 16-09-2016, पता-10, NIGAHI MODE, NIGAHI WAIDHAN, SINGRAULI (M.P.) कार्यालय, फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा, शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म हैं. यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में पूर्व में (1) Shri Satya Deo Singh S/o Shri Ram Singh, पता-Ganiyari Road Waidhan, Distt. Singrauli, Madhya Pradesh, (2) Shri Bhanu Pratap Singh S/o Shri Satya Deo Singh, पता-Ganiyari Road, Waidhan, Distt. Singrauli, Madhya Pradesh, (3) Smt. Pooja Singh D/o Shri Deosaran Singh, पता-Ganiyari Road Waidhan, Distt. Singrauli, Madhya Pradesh पार्टनर थे. जिन्होंने आपसी सहमति से दिनांक 01-04-2023 को फर्म में नवीन पार्टनर Smt. Neha Singh D/o Shri Anil Kumar Singh, Aged 33 years, Add.-Ganiyari Road, Waidhan, Distt. Singrauli (M.P.) को सम्मिलित किया गया है.

For S D SINGH CONSTRUCTION
1. Satya Deo Singh , 2. Bhanu Pratap Singh,
3. Pooja Singh, 4. Neha Singh
(Partner)

(G-1165)

PUBLIC NOTICE

This is to notify that Shri Dwarkadas S/o Shri Chhogalal, Ku. Sudha D/o Ramchandra and Smt. Shyamadevi W/o Laxmandas have retired from partnership firm "M/s Shree Balaji Industries" Registration Number 701, by mutual consent and the firm has been dissolved with effect from 01/04/1979.

श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज,
(RAMNIVAS)
S/o Ganeshram
(Partner).

(G-1166)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैंने अपना नाम नरेन्द्र कुमार A/S राजू कुशवाह से बदलकर नया नाम राजेन्द्र सिंह रख लिया है. मुझे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों, दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम राजेन्द्र सिंह के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे.

पुराना नाम

(नरेन्द्र कुमार)

A/S राजू कुशवाह

नया नाम

(राजेन्द्र सिंह)

S/o श्री मोतीलाल

पता- ग्राम करियाटी,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1167)

नाम परिवर्तन

मैं, तेजस वर्मा आत्मज श्री अनूप वर्मा, निवासी-मकान नंबर 04, स्ट्रीट नंबर 02, काजीपुरा, जुमेराती, भोपाल, मध्यप्रदेश-462001, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि पहले मेरा नाम तेजपाल वर्मा था. जो कि मेरे शैक्षणिक एवं सभी शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. किन्तु अब, मैंने अपना नाम परिवर्तन कर तेजस वर्मा कर लिया है. अतः भविष्य में अब मुझे मेरे नए नाम तेजस वर्मा से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम

(तेजपाल वर्मा)

नया नाम

(तेजस वर्मा)

पिता-अनूप वर्मा.

(G-1168)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती व्याख्या अग्रवाल नायडू पति श्री ई. अभिनव नायडू, निवासी-मकान नम्बर 131, दुर्गेश विहार कॉलोनी, जे. के. रोड, भोपाल, म.प्र. मेरा विवाह श्री ई. अभिनव नायडू आ. श्री ई. ए. के. नायडू के साथ हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था. जिसके बाद मेरा नाम श्रीमती व्याख्या अग्रवाल नायडू हो गया है. शादी के पूर्व मेरा नाम व्याख्या अग्रवाल पुत्री श्री अनिल अग्रवाल था. अब मुझे श्रीमती व्याख्या अग्रवाल नायडू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(व्याख्या अग्रवाल)

नया नाम

(व्याख्या अग्रवाल नायडू)

(G-1169)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मंजू सिंह सेंगर पति कृष्णपाल सिंह सेंगर, निवासी-182, पुराना अशोका गार्डन, भोपाल के पुत्र के दस्तावेजों में उनका नाम मंजू दर्ज है, जो कि गलत है. चूंकि उनका सही नाम मंजू सिंह सेंगर है, इसलिए अबसे उनके पुत्र के दस्तावेजों में मंजू सिंह सेंगर (Manju Singh Sengar) लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(मंजू)

(Manju)

नया नाम

(मंजू सिंह सेंगर)

(Manju Singh Sengar)

(G-1170)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम कविश दशोरा है, जो कि उसके सभी दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु उसके आधारकार्ड में उसका नाम मिथिलेश लिखा हुआ है, जो कि मेरे (पिता) का नाम है. अतः उसके आधारकार्ड में भी उसका सही नाम कविश दशोरा ही लिखा व पढ़ा जावे.

प्रार्थी

मिथिलेश दशोरा,

पिता—श्री दिनेशचन्द्र दशोरा,

पता—2/1, अप्सरेश्वर स्टीट पटनी बाजार,

उज्जैन (म.प्र.).

(G-1171)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम सानवी कुकरेजा है, किन्तु उसके कुछ दस्तावेजों में उसका नाम अना कुकरेजा लिखा हुआ है. अतः मेरी पुत्री के जिस भी दस्तावेज में उसका नाम अना कुकरेजा लिखा हुआ है, उन सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम सानवी कुकरेजा लिखा व पढ़ा जावे.

प्रार्थी

विक्की कुकरेजा,

(पिता)

पता—49, सित्वर पैलेस कॉलोनी,

अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर, म.प्र.

(G-1172)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/s. Tarak Associates Registered office at Village Mangrola, Chintaman Road, Ujjain, M.P. and Registration No is 07/33/01/0100/22, dated 26-09-2022 which was constituted *vide* Partnership deed executed on 29-03-2022.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 24/05/2023, Shri Abhishek Ji has voluntarily retired from the Partnership firm. And Shri Kamal Kumar Makhija has joined the firm as a new partner.

Now Shri Sanjay Bapna and Kamal Kumar Makhija are the running Partners in the Partnership firm.

For Tarak Associates

(SANJAY BAPNA)

(Partners).

(G-1173)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी पूर्व मेरा नाम हेमलता सोनगांवकर पिता भालचन्द्रजी सोनगांवकर था, जिसे शादी के बाद परिवर्तित करके राजश्री जोशी पति राजेन्द्र जोशी कर लिया था. अतः शादी के बाद मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम राजश्री जोशी से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(हेमलता सोनगांवकर)

पिता—भालचन्द्रजी सोनगांवकर

(G-1174)

नया नाम

(राजश्री जोशी)

पति—राजेन्द्र जोशी,

पता—84/1, वररूचि मार्ग, फ्रीगंज,

उज्जैन (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Vinita Talreja hereby declare that, my maiden name was Geeta Pariyani. But After my marriage, I have changed my name and surname as Geeta Pariyani to Vinita Talreja. So from now and in future I will be known as Vinita Talreja.

Old Name

(GEETA PARIYANI)

(G-1175)

New Name

(VINITA TALREJA)Add.-672, Hathital Colony,
Gupteshwar ward, Jabalpur (M.P.).**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारा सही व पूरा नाम मोहम्मद तनवीर व शबाना तनवीर है, किन्तु हमारे पुत्र रेहान तनवीर के स्कूल में हमारा नाम तनवीर व शबाना लिखा हुआ है, जो कि हमारा आधा नाम है, अतः मेरे पुत्र रेहान तनवीर के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में हमारा सही व पूरा नाम मोहम्मद तनवीर व शबाना तनवीर लिखा व पढ़ा जावे.

प्रार्थी

मोहम्मद तनवीर,

पता-65, माल रोड, महू,

इन्दौर (म.प्र.).

(G-1176)

CHANGE OF SURNAME

I, Om Prakash Mangal hereby declare that, in some of my documents my surname was written as Om Prakash Agrawal and in other all of documents my surname written Om Prakash Mangal. So from now and in future always in all of my Government and Non-Governmental documents my only one surname Om Prakash Mangal will be written and read for all purposes.

Old Name

(OM PRAKASH AGRAWAL)

(G-1177)

New Name

(OM PRAKASH MANGAL)

Add.-Sadar Bazar, Sendhawa, M.P.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम **BANESING CHOUHAN** (बनेसिंह चौहान) है, मेरे कुछ दस्तावेजों में गलती से मेरा नाम **BANESINGH CHOUHAN** (बनेसिंह चौहान) की जगह **CHETAN** (चेतन) लिखा गया है, अतः मेरे सभी दस्तावेज में मेरा सही नाम **BANESING CHOUHAN** (बनेसिंह चौहान) ही लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(चेतन)

(CHETAN)

(G-1178)

नया नाम

(बनेसिंह चौहान)

(BANESING CHOUHAN)

पता-161, भानगढ़ भंवरासला,

सांवेर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैं, ननकू यादव (NANKU YADAV) पिता भगन यादव (BHAGAN YADAV) निवासी-जवरी बाग, नसिया धर्मशाला केम्पस, इंदौर का हूँ, मेरे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के रिकार्ड में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश भगन यादव की जगह भगत यादव अंकित है जो कि गलत है. अतः भविष्य में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के रिकार्ड में मेरा नाम ननकू यादव पिता भगन यादव पढ़ा जावे. सो विदित हो.

पुराना नाम

ननकू यादव
(NANKU YADAV)
पिता-भगत यादव
(BHAGAT YADAV)

(G-1179)

नया नाम

ननकू यादव
(NANKU YADAV)
पिता भगन यादव
(BHAGAN YADAV)
निवासी-जवरी बाग, नसिया
धर्मशाला केम्पस, इंदौर

नाम परिवर्तन

जनसाधारण को मैं यह सूचित करना चाहती हूँ कि मेरा नाम सिस्टर नित्या Sister Nitya आत्मज श्री पॉल Paul है. जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मिनी पी.पी. Mini P.P. आत्मज श्री पॉल Paul अंकित है, मुझे समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे MINI P.P. आत्मज श्री पॉल Paul से जाना व पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे.

पुराना नाम

सिस्टर नित्या
(Sister Nitya)

(G-1180)

नया नाम

मिनी पी.पी.
(Mini P.P.)
आत्मज श्री पॉल (Paul)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरे नाना जी द्वारा मेरे जन्म के कुछ समय बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बांड मेरे जन्म के नाम तेजस्व पिपाडा (TEJASVA PIPADA MINOR) के नाम से लिए थे, जिसका पंजीकृत फोलियो संख्या DD00168400 है. जबकि मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड में मेरा नाम याशोविनय पिपाडा पिता पवन कुमार पिपाडा अंकित है, तेजस्व पिपाडा एवं याशोविनय पिपाडा यह दोनों ही नाम मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम याशोविनय पिपाडा के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे. सो विदित हो.

पुराना नाम

(तेजस्व पिपाडा)
निवासी-158, साकेत नगर,
इन्दौर.

(G-1181)

नया नाम

(याशोविनय पिपाडा)
निवासी-B/804, धीरज गौरव हाइट्स-2
इनफिनिटी मॉल के पीछे, अंधेरी वेस्ट,
आजाद नगर, मुंबई.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास अधिकारी, राजनगर, जिला छतरपुर, म.प्र.

राजनगर, दिनांक 26 मई, 2023

प्रारूप-तृतीय

[नियम-5 (1) देखिये]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत)

क्र. 0002-लोक न्यास-बी-113-2023.-एतद्वारा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, राजनगर, जिला छतरपुर के समक्ष यह कि आवेदक "श्री बागेश्वर धाम चेरिटिबल ट्रस्ट" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 16-06-2023 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसार के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता व लोक न्यास की चल अचल सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का पूरा नाम एवं पता : "श्री बागेश्वर धाम चेरिटिबल ट्रस्ट".
म.नं. 25, ग्राम गढ़ा, पोस्ट गंज, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म.प्र.
471001.
2. चल सम्पत्ति :
 1. चांदी की विभिन्न वस्तुएं कुल वजन 3.000 कि.ग्रा.
 2. पीतल गोल्डन पॉलिस की विभिन्न वस्तुएं कुल वजन 1.200 कि.ग्रा.
 3. जर्मन सिल्वर की कुल वस्तुएं कुल वजन 8.080 कि.ग्रा.
 4. पीतल की वस्तुएं कुल वजन 5.480 कि.ग्रा.
 5. चाँदी की माला-1 बाला जी की
 6. कमल सिंहासन जर्मन सिल्वर श्रीयंत्र के लिये 1 नग.
 7. चांवर एक नग 400 ग्राम.
 8. वज्र 2 बाला जी का जर्मन सिल्वर व पीतल सहित 820 ग्राम.
 9. वज्र बड़ा पेशी बाली बाला जी के पास वजन 800 ग्राम.
 10. संख बड़ा एक.
 11. संखी छोटी एक स्टेण्ड सहित.

3. अचल सम्पत्ति : 1. ग्राम गढ़ा की भूमि खसरा नंबर 430, 431 रकबा क्रमशः 0.259, 0.279 हे. कुल रकबा 0.538 हे. भूमि पीठाधीश महाराज के पिता प. श्री रामकृपाल गर्ग जी तनय स्व. श्री सेन्तु लाल दादा गुरु जी के नाम.
2. पीठाधीश महाराज श्री धीरेन्द्र गर्ग के द्वारा जरिये विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 09-11-2022 को क्रय की गई भूमि खसरा नंबर 485/1 कुल रकबा 0.413 हे.
3. 30X30 वर्गफीट में पक्का बना सामुदायिक भवन
4. तीन मंजीला सर्व-सुविधायुक्त आश्रम.
5. आश्रम एवं अन्नपूर्णा भवन के दक्षिण की ओर तालाब जिसका कुल रकबा 0.3 एकड़.

(G-1182)

अक्षत जैन, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट पाटन, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5 के तहत)

लोक सूचना

प्र.क्र. 0098-बी-121-2022-23.-आवेदक दिनेश कुमार जैन पिता सुरेशचंद जैन एवं अन्य चार सभी निवासी ग्राम कटंगी, तहसील पाटन, जिला जबलपुर की ओर से अधिवक्ता द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 25(3) के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि सकल दिगम्बर जैन समाज का मंदिर श्री पारसनाथ दिगम्बर जैन मंदिर लोक न्यास मौजा कटंगी, तहसील पाटन, जिला जबलपुर में स्थित है. उक्त न्यास 'लोक न्यास पंजी कमांक-91 पर दर्ज है जिसके न्यासीगण शोभाराम जैन, कन्हैयालाल जैन, बाबूलाल जैन, मूलचंद जैन, मथुराप्रसाद जैन, बाबूलाल पिता भैयालाल जैन, अनंदा लाल जैन थे. जिनके नाम लोक न्यास पंजी में दर्ज है. उक्त सभी न्यासीगण फौत हो चुके हैं. आवेदकगण द्वारा उक्त न्यास के फौती न्यासीगण के स्थान पर राजकुमार सिंघई, दिनेश कुमार जैन, विजयकुमार जैन, अभय जैन (डब्लू), साकेत जैन एवं ऋषभ कुमार जैन के नाम न्यासीगण के रिक्त पदों पर नये न्यासियों की नियुक्ति किये जाने हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के अनुसार सकल दिगम्बर जैन समाज का मंदिर श्री पारसनाथ दिगम्बर जैन मंदिर लोक न्यास, मौजा कटंगी, तहसील पाटन, जिला जबलपुर के मृत न्यासियों के स्थान पर आवेदकगण का नाम लोक न्यास पंजी में दर्ज किये जाने के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति नियत दिनांक 17-05-2023 को अथवा वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

नियत दिनांक 17-05-2023

जारी दिनांक 18-04-2023

(G-1183)

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-5 के तहत)

लोक सूचना

प्र.क्र. 45-बी-121-2022-23.-आवेदक श्री शिवशंकर मंदिर लोक कल्याण न्यास कटंगी द्वारा सदस्यगण की ओर से श्री प्रशांत मिश्र, श्री एच. एन. पटेल अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र, प्रस्तुत किया गया है कि श्री शिवशंकर लोक कल्याण न्यास कटंगी, तहसील पाटन, जिला जबलपुर लोक न्यास पंजी के क्रमांक-74 पर दर्ज है.

उक्त न्यास के प्रबंध न्यासी श्री डब्लु रैकवार पिता बसोरे लाल रैकवार की मृत्यु दिनांक 09-07-2019 को होने के फलस्वरूप उक्त मृत प्रबंध न्यासी के स्थान पर श्री मदन लाल सोनी का नाम प्रबंध न्यासी के रूप दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्ताव दिनांक 19-02-2020, लोक न्यास पंजी की सत्यप्रतिलिपि की छायाप्रति, प्रस्ताव, अधिवक्ता पत्र सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार श्री शिवशंकर मंदिर लोक कल्याण न्यास कटंगी के मृत प्रबंध न्यासी स्व. श्री डब्लु रैकवार के स्थान पर श्री मदन लाल सोनी पिता स्व. टीकाराम सोनी, निवासी म.नं. 19 जमनोत्री विंग जानकी नगर जबलपुर का नाम प्रबंध न्यासी के रूप में दर्ज किये जाने के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति स्वयं उपस्थित होकर अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से नियत दिनांक 30-05-2023 को अथवा नियत दिनांक के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

नियत दिनांक 30-05-2023

जारी दिनांक 02-05-2023

(G-1184)

मो. शाहिद खान, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, परगना व जिला भिण्ड, म.प्र.

भिण्ड, दिनांक मई, 2023

फार्म-4

[नियम (1) देखिये]

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) के अंतर्गत)

प्र.क्र. 0001-2023-24-बी-113(ट्रस्ट गठन).-जैसा कि श्रीमती कुसुमलता पत्नी ओमेन्द्रसिंह आदि निवासी पट्टोबाई धर्मशाला पुस्तक बाजार, भिण्ड द्वारा (पट्टोबाई धर्मशाला भिण्ड) का पब्लिक न्यास गठन किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय सहपत्रों के जरिये अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 12-06-2023 को विचार में लिया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो ओर कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि समाप्त के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : "पट्टोबाई धर्मशाला पब्लिक ट्रस्ट, भिण्ड".

2. चल सम्पत्ति : कुल अनुमानित कीमत 89,000/- रुपये.
3. अचल सम्पत्ति : पुस्तक बाजार वाली रोड पर पट्टोबाई धर्मशाला की चौड़ाई 75 फुट ओर भूता बाजार वाली रोड पर इसकल चौड़ाई 47 फुट व धमेन्द्र जैन के मकान की तरफ इसकी लम्बाई 105 फुट ओर जैन मंदिर के बगल में इसकी लम्बाई 60 फुट कुल क्षेत्रफल 6867 वर्गफीट है जिसमें प्रथम तल पर कमरे 18, हाल-1, दुकानें 8 द्वितीय पर 5 फ़ैमली पोरशन है.

(G-1185)

उदयसिंह सिकरवार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, म.प्र.

नियम-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962, का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

श्री रामजानकी विश्वकर्मा जांगिड ब्राह्मण मेवाड समाज सकलपंच मंदिर पेढी ट्रस्ट ग्राम बनी तहसील दलौदा द्वारा अध्यक्ष जगन्नाथ पिता काशीराम शर्मा तह, मंदसौर ट्रस्ट

प्र.क्र. 06-बी-113(1)-2022-23.-चूंकि श्री रामजानकी विश्वकर्मा जांगिड ब्राह्मण समाज सकलपंच मंदिर पेढी ट्रस्ट ग्राम बनी तहसील दलौदा द्वारा अध्यक्ष जगन्नाथ पिता काशीराम शर्मा ट्रस्ट ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा 4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26-06-2023 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है, और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, बिहारीसिंह, पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 26-06-2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि दो समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

संपत्ति का विवरण

(अ) अचल संपत्ति : निरंक

(ब) चल संपत्ति : निरंक

(G-1186)

बिहारीसिंह, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2023-आषाढ 2, शक 1945

भाग ३ (२)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)